


[www.mmmm-expo.com](http://www.mmmm-expo.com)

15<sup>th</sup> International Exhibition & Conference on  
Minerals, Metals, Metallurgy & Materials

**10 - 12 September 2026**  
Yashobhoomi, Dwarka  
New Delhi, INDIA



Supported by  
**WMF**™ A Step Forward  
WORLD METAL FORUM the Industry



**CWE**™  
CUTTING AND WELDING EQUIPMENT EXPO

**INEX**™  
INTERNATIONAL MACHINE TOOLS EXPO

**TECHINDIA**™  
ENGINEERING AND MANUFACTURING EXPO

**UNEX**™  
USED MACHINERY EXPO

**HAND TOOLS**  
EXPO

**FASTENER**  
EXPO

## ABOUT INDUSTRY

India is the world's second-largest producer of crude steel and has produced 126.6 million tonne (MT) of crude steel during Financial year ended March 31, 2026, the output was about 5.5 per cent higher compared to the country's production in the preceding fiscal year which was 120 MT steel in 2021-22.

The growth in the Indian steel sector has been driven by the domestic availability of raw materials such as iron ore and cost-effective labour. Consequently, the steel sector has been a major contributor to India's manufacturing output.

Government of India is aiming to scale the Steel production upto 300 Million Tons and increase the per capita steel consumption upto 160 kgs by 2030-31 as per National Steel Policy. The liberalization of industrial policy and other initiatives taken by the Government have given a definite impetus for entry, participation and growth of the private sector in the steel industry.

Indian Steel Industry is witnessing consolidation of players which will present an opportunity for global players to enter the Indian Market, while the existing units are being modernized/expanded, a large number of new steel plants have also come up in different parts of the country based on modern, cost effective, state-of-the-art technologies.

Huge scope for growth is offered by India's comparatively low per capita steel consumption and the expected rise in consumption due to increased infrastructure construction and the thriving automobile and railways sectors.

## ABOUT MMMM

**MMMM** is, by far, the largest and the most prestigious event on Minerals, Metals, Metallurgy & Materials with presence of a large number of leading companies of Mining, Metals and Materials industries. The event has always received worldwide appreciation from all over the industry and proved to be the best international business platform in India. The event is being organised by Hyve India Private Limited (Formerly known as International Trade and Exhibitions India Pvt Ltd), the Indian subsidiary of Hyve Group

### A Sneak Preview

- Supported by World Metal Forum (WMF) and relevant Ministries, trade associations
- Expected Presence of **400+** leading Exhibitors from **15+ countries**
- Concurrent Open Seminar
- **25 +** Invited International Trade Delegations from 10+ Countries
- Exclusive Industry Excellence Awards
- Investor Meet by International Chambers of Commerce
- Various New Launches by exhibitors

**A complete conclave of Policy Makers, CEOs, and Industry experts, Scientists, Academia and Engineers associated with Minerals, Metals, Metallurgical and Allied Industries**



## Metal Manufacturers and Suppliers

- Aluminium
- Copper
- Pipes and Tubes
- Steel and Steel Structures
- Stainless Steel
- Zinc
- Wire
- Lead

## Minerals

- Mineral Development Corporations
- Minerals Exploration Technology
- State Governments
- Handling & Processing
- Transportation and Logistics

## Machinery & Technology for Minerals Mining & Processing

- Communication Systems & Technology
- Conveyor Belting & Components
- Drilling and Crushing
- Earth Moving Equipment and accessories
- Environment & Geology and Mining Related Services
- Fans and Dust Collectors
- Locomotives, Lubricants & Greases
- Mines Safety Equipment
- Process Control Systems
- Rock Drilling Equipment

## Metallurgical Equipment & Technology

- Foundry Machinery & Technology
- Welding Equipment & Technology
- Rolling Mill Equipments

## Machinery & Technology for Steel & Metal Manufacturing

- Automation & Instrumentation
- Energy Conservation
- Engineering and Design
- Environment Protection
- Filtration & Separation
- Induction Furnace and Heat Treatment
- Nano-Technologies
- Pelletisation
- Project Management & Consultation

- Pumps & Valves
- Quality Control
- Refractories
- Safety Equipment & Technology
- Scientific Research & Development
- Scrap Collecting and Recycling
- Sheet Metal, Tubes, Sections (ferrous and nonferrous)
- Sintering
- Smelting and Refining
- Software Technology

## Metal Working Machinery & Technology

- Bearing & Shafts
- Cutting, Shaping, Bending & Welding
- Extrusion
- Finished Products, Components, Assemblies
- Flexible Sheet Metal Working
- Forging, Casting equipment and Accessories
- Forming
- Foundry Engineering
- Furnace and Heat Treatment
- Gears, Motors & Compressors
- Joining, Fastening
- Lapping
- Laser Cladding
- Lubricants
- Machine Tools and Dies
- Polishing
- Spray Painting Systems
- Surface Treatment & Corrosion Technology
- Tube / Section Processing
- Vibrator De-burring Machines & Consumables

## Material Handling Solutions

- Cranes & Lifting Equipment
- Hoists & Aerial Work Platform
- Industrial Trucks, Forklifts & Accessories
- Innovative Logistics Solutions
- Loading & Unloading Equipment
- Robotic Systems & Automation
- Warehouse Technology & Systems



# Visitor Profile

## Buying and Sourcing Mineral Processing


- Mineral Development Corporations
- Mineral Processing Units
- Public Sector Enterprises
- MSMEs and Private Companies
- State Government Departments & Agencies
- Contractors
- Scientific Research & Development Institutions

## Steel and Metal Manufacturers

- Metal Producing Companies
- Alloy Manufacturers
- Material Testing Agencies
- Ferrous and Non-ferrous metal production Plants and Units
- Foundry Engineering Units

## Buying and Sourcing of Metal & Metal Working Machinery:

- Aerospace & Defense
- Automobile Industry
- Casting, Forgings and Foundries
- Component Manufacturers
- Consulting Service Providers
- Electrical & Electronics Industry
- EPC Companies
- Fabricators
- Iron and Steel Production
- Non-Ferrous Metals Production
- OEMs
- Power Transmission and Distribution
- Railways
- Rolling Mills
- Sheet Metal Fabricators
- Sheet Metal Products and Component Manufacturers
- Shipbuilding and Ship Repair Industry
- Steel & Aluminum Construction
- Tube and Pipe Sector
- Water Supplier Sector



**18,000** Sqm  
GROSS EXHIBITING AREA



**253**  
EXHIBITING COMPANIES



**10**  
EXHIBITING COUNTRIES  
Canada, China, Hong Kong, India,  
Italy, Korea, Portugal, South Africa,  
Taiwan, Turkey



**9,017**  
UNIQUE VISITORS



**300+**  
DELEGATES



**SUPPORT FROM**  
MAJOR TRADE ASSOCIATIONS  
AND WORLD METAL FORUM



BUSINESS MEETS ON  
**“Latest Technology for Manufacturing  
& Maintenance Industries”**  
by WMF




INTERNATIONAL CONFERENCE ON  
**“Process & Product Innovations  
in Metal Production”**  
by IIM- Delhi Chapter



INTERNATIONAL OPEN SEMINAR ON  
**“Green Steel Production: Sustainable  
Practices and Carbon Reduction”**  
by Metalogic


Day	No. of Visitors
Day 1	3,078
Day 2	3,707
Day 3	2,232
<b>Total</b>	<b>9,017</b>

### OVERALL SATISFACTION




83% are Overall Satisfied with shows

### IMPORTANCE OF THE EVENT




85% Feel the Importance of Event

### LIKELIHOOD TO RETURN TO ATTEND




83% are likely to attend for next edition.

### NET PROMOTER SCORE 20




### OVERALL PURCHASE RESPONSIBILITY




77% have Overall Purchase Responsibility

### NUMBER OF PREVIOUS EXHIBITS




88% No. of previous visits

### OVERALL SATISFACTION




😊 69% are Satisfied with shows

### LIKELIHOOD TO RETURN NEXT YEAR




😊 77% are likely to return for MMMM 2026 next edition.

### OVERALL RETURN ON INVESTMENT



23% exhibitors agree that exhibition delivered a better ROI for them

### NET EASY SCORE



### Special Commendation-Lubricants

- Bharat Petroleum Corporation Ltd

### Special Commendation-Gears, Motors & Gearbox

- Boneng Transmission India Pvt Ltd

### Special Commendation-Bearing & Shafts

- Eastern Bearings Pvt. Ltd.

### Special Commendation-Pumps & Valves, Quality control

- Edwards India Pvt Ltd

### Special Commendation-Induction Furnace and Heat Treatment, Steel and Steel Structures, Pipes and Tubes

- Electrotherm (India) Ltd.

### Special Commendation-Cranes, Forklift & Trucks

- Elite Steels Pvt Ltd

### Special Commendation-Refractories

- Liaoning Yuxin Hi-tech New Material Co. Ltd

### Special Commendation-Transportation and Logistics

- LinqHaul India Pvt Ltd

### Special Commendation-Quality Control

- Metal Power Analytical Pvt Ltd

### Special Commendation-Mineral Development Corporation

- NMDC Limited

### Special Commendation-Gears, Motors & Compressors

- Power Build Private Limited

### Special Commendation-Locomotives, Lubricants & Greases

- Shell India Markets Pvt Ltd

### Special Commendation-Filtration & Separation

- Sidermag India Pvt Ltd

### Special Commendation-Pumps & Valves

- Sulzer Pumps India Private Limited

### Special Commendation-Gears, Motors & Compressors

- Taier Heavy Industry Co. Ltd



# Metal, Machinery & Manufacturing Industry

## BUSINESS CARNIVAL FOR INDIA'S GROWING INDUSTRIAL SECTORS

The country's largest exhibition for the metal, machinery, manufacturing, and maintenance industries will bring together over 250 exhibitors

Deep Jha | @deepjha03

India has made significant strides in its engineering sector. The country exports transport equipment, capital goods, other machinery/equipment and light engineering products to different countries. Manufacturing of these machines and equipment requires a large number of nuts, screws, bolts, studs, rivets, and various other fasteners. Moreover, the rising construction and infrastructure activities in the country is also driving the demand and growth of these products.



Keeping in view the increasing demand, India's largest exhibition for the Metal, Machinery, Manufacturing, and Maintenance industries will be held from September 27 to 29, 2024, at Yashobhooni, Dwarka, New Delhi. The expo promises to be a key platform for showcasing new technologies, fostering business connections and discussing the future of India's booming industrial sectors.

Chief guest Bhupathiraju Sriwasa Varma, Minister of State for the Ministry of Steel.

### FOUR EXPOS UNDER ONE ROOF

The HIM Expo will highlight the latest in-hand tools, power tools, and fasteners. The MM&M Expo will showcase cutting-edge technologies in cutting and welding. IMEX will feature advanced machine tools and CNC equipment, whereas UMEX will focus on an economical pre-owned machinery for industries. The MM&M 2024 Expo has attracted top companies and industry players from around the world. Co-organized with the Indian Institute of Metals (IIM) and supported by the World Metal Forum (WWMF), the event will be a hub for knowledge exchange, collaboration, and business.

The expo promises to be a key platform for showcasing new technologies, fostering business connections and discussing the future of India's booming industrial sectors.

Business meets on new technologies in manufacturing and maintenance. This also will provide a unique networking opportunity for manufacturers, CEOs, and industry leaders to discuss strategic partnerships. Business meets on new technologies in manufacturing and maintenance industries. According to the World Steel Association, steel production accounts for 7.6 per cent of global carbon emissions, making it essential to adopt sustainable practices. The event will dive into the steps industries can take to align with global sustainability goals and the government's push towards greener production methods. "Green steel production is not just a choice but a necessity if India is to lead the world in sustainable industrial practices, the decarbonization of steel and other heavy industries must be at the forefront of this revolution," says Capan Sarda, Director, Hye India F1&I. So, don't miss out on the grand inauguration ceremony. With participation from more than 250 exhibitors and leading industry experts, this event is a must-visit for professionals from across the industrial spectrum. The exhibition is open to all trade visitors from 10 am to 6 pm on September 27-28, and 10 am to 5 pm on September 29. The entry is free for pre-registered attendees, and on-the-spot registrations will also be available at the venue.



## यशोभूमि में होगा 14वें एमएमएमएम एक्सपो का आयोजन

सवेरा न्यूज़/आकाश द्विवेदी  
नई दिल्ली, 24 सितम्बर : राजधानी खनिज, धातु, धातुकर्म और सामग्री पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े ट्रेड शो, 14वें एमएमएमएम एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी 27 से 29 सितंबर तक इंडिया इंटरनैशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि में आयोजित की जाएगी। यह भारत में मिनरल्स, मेटलस, मेटलजी और मेटैरियल्स से जुड़े उद्योगों का सबसे बड़ा आयोजन होगा। हाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गणन साहनी ने सोमवार को एक्सपो की तैयारियों को जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक संस्करण के साथ इस आयोजन की महत्ता बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार भी 10 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जबकि 12 हजार से अधिक खरीदार दक्षिण एशिया से यहां पहुंचेंगे।

## यशोभूमि में होगा 14वें एमएमएमएम एक्सपो का आयोजन

**शुक्रवाह ट्रेड, नई दिल्ली** - राजधानी नई दिल्ली खनिज, धातु, धातुकर्म और सामग्री पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े ट्रेड शो, 14वें एमएमएमएम एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी 27 से 29 सितंबर, 2024 तक इंडिया इंटरनैशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि में आयोजित की जाएगी। यह भारत में मिनरल्स, मेटलस, मेटलजी और मेटैरियल्स से जुड़े उद्योगों का सबसे बड़ा आयोजन होगा। हाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गणन साहनी ने सोमवार को एक्सपो की तैयारियों को जांचक तरीके से हुए कहा कि प्रत्येक संस्करण का साथ इस आयोजन की महत्ता बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार भी 10 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जबकि 12 हजार से अधिक खरीदार दक्षिण एशिया से यहां पहुंचेंगे। साहनी ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटलस-दिल्ली सेंटर और

वर्ल्ड मेटल फोरम के सहयोग से किया जा रहा है। इसका 2024 संस्करण में चीन, यूरोपीय देशों और रुस के लिए अलग-अलग पर्यवेक्षण बजार कार्पें, जो व्यापार और तकनीकी सहयोगों को बढ़ावा देते। एमएमएमएम 2024 एक्सपो में विभिन्न संयुक्त उद्यम, साझेदारी, निवेश और तकनीकी आदान-प्रदान से देश में खनिज, धातु और सामग्री उद्योगों की प्रगति को बल मिलेगा। यह अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी न केवल व्यापार को आगे बढ़ाने का मौका देती बल्कि सर्वश्रेष्ठ टेकनोलॉजी और नवाचार में नए अवसर भी प्रदान करती है। साहनी ने कहा कि 2023 के वित्तीय वर्ष में भारत के वित्तियोग क्षेत्र में 4.7% की वृद्धि हुई, जिसका श्रेय विधानन, भारी इंडीनिफरिण, चोटर वाहन, कृषि और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुई व्यापक प्रगति को जाता है। इस संस्करण से उद्योग सतह से मिलेगा, जो इन क्षेत्रों में अग्रे बढ़ने के लिए बेहतर महत्वपूर्ण साधन होगा।

# Metal, Machinery & Manufacturing Industry

## Final Day of India's Largest Industrial Exhibition: Celebrating Achievements and Looking Ahead

Yashobhooni, Dwarka— As we reach the final day of India's Largest Exhibition for Metal, Machinery, Manufacturing, and Maintenance, held from September 27-29, it's time to reflect on the remarkable journey we've experienced over the past few days. This event has successfully showcased seven key expos centered on Metal, Machinery, Manufacturing, and Maintenance, attracting thousands of industry professionals eager to explore innovations and foster valuable connections.

The event began with a grand inauguration ceremony, officiated by the distinguished Chief Guest, Sh. Bhupathiraju Sriwasa Varma, Hon'ble Minister of State for Steel, Government of India. His presence marked the start of a highly dynamic and impactful gathering, setting the tone for an extraordinary showcase of industry advancements and opportunities. As we enter the final day of India's Largest Industrial Exhibition at Yashobhooni, Dwarka, the synergy of six major expos has created an unparalleled platform for the metal, engineering, manufacturing, and machine tools industries. This amalgamation includes HIMT for Advanced Hand Tools, Power Tools, and Fasteners;

CWE, which highlights Advanced Cutting and Welding Equipment & Technology, including Laser Technology; IMEX for the latest in Machine Tools such as CNC, Laser, Shot Blasting, and Measuring & Testing Equipment; UMEX, focused on Economical Pre-owned Machinery; TECHNIDA, showcasing Engineering and Manufacturing solutions like Pumps, Valves, and Compressors; and MM&M, the largest and most prestigious event on Minerals, Metals, Metallurgy & Materials.



Together, these expos have formed an extended platform that showcases the strength, innovation, and expertise of both the Indian and international manufacturing and technology sectors. Over the last two days, exhibitors and visitors alike have seized

countless business opportunities, and driven significant deals that will fuel growth in the months to come. Large Industrial Exhibition today, the final day promises impactful sessions that will provide valuable insights into the metal, machinery, and manufacturing sectors. A key highlight is the Metal Industry & Investor Meet, bringing together industry leaders and investors to explore new opportunities, investments, and sustainable practices.

As we conclude India's opportunities, formed new partnerships, and driven significant deals that will fuel growth in the months to come. Large Industrial Exhibition today, the final day promises impactful sessions that will provide valuable insights into the metal, machinery, and manufacturing sectors. A key highlight is the Metal Industry & Investor Meet, bringing together industry leaders and investors to explore new opportunities, investments, and sustainable practices.

The final day a fitting conclusion to this successful event. The networking opportunities have proven invaluable, with many exhibitors and visitors forming collaborations that promise to drive innovation and growth within the industry. As we conclude this event, we encourage all attendees to take advantage of the last chance to connect with peers, share ideas, and explore potential partnerships. The exhibition floor is still open, featuring over 250 leading exhibitors showcasing their latest products and technologies. This is a final opportunity for visitors to engage directly with manufacturers and suppliers, gaining firsthand knowledge of solutions that can enhance their operations. As we look forward to future events, the success of this exhibition reinforces the importance of collaboration and innovation in driving the industry forward. We thank all exhibitors, speakers, and attendees for their active participation and enthusiasm throughout



the event. Join us as we close out this extraordinary exhibition. The exhibition is open to all trade visitors from 10 AM to 4 PM on 29 September each day. Entry is free for pre-registered attendees, and on-the-spot registrations will also be available at the venue. Please note that children under 18 years and infants in arms are not permitted in the exhibition hall. Event Location: Yashobhooni (ICC), Dwarka, New Delhi

Join

# WWMF

WORLD METAL FORUM

A Step Forward  
the Industry

www.worldmetalforum.org

## यशोभूमि में होगा 14वें एमएमएमएम एक्सपो का आयोजन

**शुक्रवाह ट्रेड, नई दिल्ली** - राजधानी नई दिल्ली खनिज, धातु, धातुकर्म और सामग्री पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े ट्रेड शो, 14वें एमएमएमएम एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी 27 से 29 सितंबर, 2024 तक इंडिया इंटरनैशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि में आयोजित की जाएगी। यह भारत में मिनरल्स, मेटलस, मेटलजी और मेटैरियल्स से जुड़े उद्योगों का सबसे बड़ा आयोजन होगा। हाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गणन साहनी ने सोमवार को एक्सपो की तैयारियों को जांचक तरीके से हुए कहा कि प्रत्येक संस्करण का साथ इस आयोजन की महत्ता बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार भी 10 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जबकि 12 हजार से अधिक खरीदार दक्षिण एशिया से यहां पहुंचेंगे। साहनी ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटलस-दिल्ली सेंटर और वर्ल्ड मेटल फोरम के सहयोग से किया जा रहा है। इसका 2024 संस्करण में चीन, यूरोपीय देशों और रुस के लिए अलग-अलग पर्यवेक्षण बजार कार्पें, जो व्यापार और तकनीकी सहयोगों को बढ़ावा देते हैं। एमएमएमएम 2024 एक्सपो में विभिन्न संयुक्त उद्यम, साझेदारी, निवेश और तकनीकी आदान-प्रदान से देश में खनिज, धातु और सामग्री उद्योगों की प्रगति को बल मिलेगा। यह अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी न केवल व्यापार को आगे बढ़ाने का मौका देती बल्कि सर्वश्रेष्ठ टेकनोलॉजी और नवाचार में नए अवसर भी प्रदान करती है। साहनी ने कहा कि 2023 के वित्तीय वर्ष में भारत के वित्तियोग क्षेत्र में 4.7 प्रशिया की वृद्धि हुई, जिसका श्रेय विधानन, भारी इंडीनिफरिण, चोटर वाहन, कृषि और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुई व्यापक प्रगति को जाता है।

## यशोभूमि में होगा 14वें एमएमएमएम एक्सपो का आयोजन

**शुक्रवाह ट्रेड, नई दिल्ली** - राजधानी नई दिल्ली खनिज, धातु, धातुकर्म और सामग्री पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े ट्रेड शो, 14वें एमएमएमएम एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी 27 से 29 सितंबर, 2024 तक इंडिया इंटरनैशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि में आयोजित की जाएगी। यह भारत में मिनरल्स, मेटलस, मेटलजी और मेटैरियल्स से जुड़े उद्योगों का सबसे बड़ा आयोजन होगा। हाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गणन साहनी ने सोमवार को एक्सपो की तैयारियों को जांचक तरीके से हुए कहा कि प्रत्येक संस्करण का साथ इस आयोजन की महत्ता बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार भी 10 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जबकि 12 हजार से अधिक खरीदार दक्षिण एशिया से यहां पहुंचेंगे। साहनी ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटलस-दिल्ली सेंटर और वर्ल्ड मेटल फोरम के सहयोग से किया जा रहा है। इसका 2024 संस्करण में चीन, यूरोपीय देशों और रुस के लिए अलग-अलग पर्यवेक्षण बजार कार्पें, जो व्यापार और तकनीकी सहयोगों को बढ़ावा देते हैं। एमएमएमएम 2024 एक्सपो में विभिन्न संयुक्त उद्यम, साझेदारी, निवेश और तकनीकी आदान-प्रदान से देश में खनिज, धातु और सामग्री उद्योगों की प्रगति को बल मिलेगा। यह अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी न केवल व्यापार को आगे बढ़ाने का मौका देती बल्कि सर्वश्रेष्ठ टेकनोलॉजी और नवाचार में नए अवसर भी प्रदान करती है। साहनी ने कहा कि 2023 के वित्तीय वर्ष में भारत के वित्तियोग क्षेत्र में 4.7 प्रशिया की वृद्धि हुई, जिसका श्रेय विधानन, भारी इंडीनिफरिण, चोटर वाहन, कृषि और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुई व्यापक प्रगति को जाता है।



# Metal, Machinery & Manufacturing Industry

"HINDUSTAN TIMES MEDIA MARKETING INITIATIVE"

## The Grand Launch of India's Premier Manufacturing and Metal Industrial Exhibition at Yashobhoomi, Dwarka

### A Grand Showcase for Metal, Machinery, Manufacturing, and Maintenance

On September 27, 2024, the long-awaited and highly anticipated exhibition for the Metal, Machinery, Manufacturing, and Maintenance industries has finally opened its doors today at Yashobhoomi, Dwarka, New Delhi. In what promises to be a landmark event for the industry, organized by Hyve India, this grand event is set to be a veritable showcase of innovation, featuring over 250 top exhibitors attracting more than 12,000 professional visitors from across the country and around the globe. Industry professionals, leaders, and innovators are converging to witness the latest cutting-edge technologies and solutions driving the future of metal, machinery, manufacturing, and maintenance. The event will feature six major segments: **HTF for Advanced Tools, Power Tools, and Pneumatics**; **CWE for Advanced Cutting and Welding Equipment & Technology**, including Laser Technology; **IMEX for the Latest Heavy Tools** (CNC, Laser, Shot Blasting, Measuring & Testing Equipment, and more); **UMEX for Industrial Pre-owned Machinery & Equipment**; **TECHINDIA for Precision Engineering and Manufacturing** (Pumps, Valves, Compressors, and more) along with **MMMM**, the most and most prestigious event in the Minerals, Metals, Metallurgy & Materials sector.

MMMM 2024 is supported by the Ministries of Steel, Coal, Electronic & Information Technology, Commerce & Industry, Government of India and honored to have the Hon'ble Minister of Steel, Government of India, invited to formally inaugurate the event, alongside the former Secretary of the Ministry of Steel and leaders from the steel and allied industries. This series of expos serves as a comprehensive platform for the metal, engineering, manufacturing, and machine tools



sectors, showcasing the innovation and strength of both Indian and international manufacturing and technology industries. The event will commence with an inauguration ceremony, led by our esteemed Chief Guest, Sh.

Bhupathiraju Srinivasa Varma, Hon'ble Minister of State for the Ministry of Steel, Govt. of India marking the beginning of a dynamic and impactful gathering. Attendees will experience a wealth of activities, including: **An International Open Seminar On Green Steel Production: Sustainable Practices and Carbon Reduction** powered by Metalogic, where we anticipate valuable insights from prominent industry figures. The session will open with an inaugural address by Ms.



Neha Verma, IFS, Director, Ministry of Steel, followed by a keynote speech from Sh. Nagendra Nath Sinha, Former Secretary, Ministry of Steel. We have invitees such as Mr. SS Mohanty, CEO & MD, Essar

Minmet & Former President of The Indian Institute of Metals, Mr. VR Sharma, Vice Chairman of the Advisory Group at JSP, Mr. Subhankar Sen, Business Head (Lubes) at Bharat Petroleum Corporation Limited, Mr. Sanjay Mehta, President - MRAI and MD of MTC Steel, Mr. Aseem Gill, Vice President at Yogi Digi, and, to share their insights International Conference on Process & Product Innovations in Metal Production Hosted by the IIM Delhi Chapter, this conference will cover the emerging developments and technologies in the metal industry. **Exclusive Steel Manufacturers Networking Pavilion:** This area will provide a unique networking opportunity for manufacturers, CEOs, and industry leaders to discuss strategic partnerships.

**Business Meets on New Technologies in Manufacturing and Maintenance:** These sessions will focus LATEST TECHNOLOGY FOR MANUFACTURING & MAINTENANCE INDUSTRIES. As the exhibition progresses, tomorrow's agenda features even more engaging sessions. Participants can expect in-depth discussions on innovations, including the Future of Iron Making in the Era of Green Steel Production, the Task Force for Green Steel, and



Decarbonization Techniques in Iron Making. Additionally, the focus on sustainability will continue, providing valuable insights on aligning with global sustainability goals. The exhibition is open to all trade visitors from 10 AM to 6 PM on 27-28 September and 10 AM to 4 PM

on 29 September each day. Ent free for pre-registered attendees and on-the-spot registrations are also available at the venue. Please note that children under years and infants in arms are not permitted in the exhibition hall. Event Location: Yashobhoomi (IICC), Dwarka, New Delhi

दैनिक भास्कर विविध समाचार के लिए देश भर से खबरें चुनें अपने लिए खरीदें और बेचें।

## यशोभूमि में होगा 14वें एमएमएमएम एक्सपो का आयोजन

**आयोजक समाचार सेवा**  
नई दिल्ली। राजधानी नई दिल्ली खनिज, धातु, धातुकर्म और सामग्री पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े ट्रेड शो, 14वें एमएमएमएम एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी 27 से 29 सितंबर, 2024 तक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि में आयोजित की जाएगी। यह भारत में मिनरल्स, मेटल्स, मेटलजी और मैटेरियल्स से जुड़े उद्योगों का सबसे बड़ा आयोजन होगा। हाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गगन साहनी ने सोमवार को एक्सपो की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक संस्करण के

साथ इस आयोजन की महत्ता बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार भी 10 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जबकि 12 हजार से अधिक खरीदार दक्षिण एशिया से यहां पहुंचेंगे। साहनी ने कहा कि 2023 के वित्तीय वर्ष में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में 4.7% की वृद्धि हुई, जिसका ब्रेक विमानन, भारी इंजीनियरिंग, मोटर वाहन, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुई व्यापक प्रगति को जाता है। इस एक्सपो से उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ संवाद करने का सुनहरा अवसर मिलेगा, जो इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।

## यशोभूमि में होगा 14वें एमएमएमएम एक्सपो का आयोजन

अमर भारती संवाददाता नई दिल्ली। खनिज, धातु, धातुकर्म और सामग्री पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े ट्रेड शो, 14वें एमएमएमएम एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी 27 से 29 सितंबर, 2024 तक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि में आयोजित की जाएगी। यह भारत में मिनरल्स, मेटल्स, मेटलजी और मैटेरियल्स से जुड़े उद्योगों का सबसे बड़ा आयोजन होगा। हाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गगन साहनी ने सोमवार को एक्सपो की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक संस्करण के साथ इस आयोजन की महत्ता बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार भी 10 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जबकि 12 हजार से अधिक खरीदार दक्षिण एशिया से यहां पहुंचेंगे। साहनी ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स-दिल्ली चैटर और वर्ल्ड मेटल फोरम के सहयोग से किया जा रहा है।

**“We are participating for the first time, and the overall experience with the organizing team has been smooth”**

*Mansoor Ali Farooqi founder of linqhaul*

**“It was an overall good experience. This is a great platform to meet dealers and visitors from different nationalities. We are glad to be a part of this exhibition”**

*Team Electrotherm*

**“The arrangement the overall experience was good and satisfactory”**

*Nedim - Liaoning Yuxin Hi-tech New Material Co. Ltd*

**The experience has been very good; we are gaining excellent exposure here and attracting clients from across India”**

*Nirav Vakriya Radicon Power Build Private Limited*

**“The experience has been great. We can see diversified vendors, and it's a good environment here.”**

*Team Sulzer:*



### As an **Exhibitor**

- Display your latest array of products, technology and services to highly focused trade visitors, trade media and delegates
- One to one interaction with the industry at one location
- Brand building among industry and end users
- Explore new business and investment opportunities

### As a **Sponsor**

- Benefit from an ideal time, place and opportunity to get noticed
- Stand out from the crowd
- Enhance your leadership status
- Project a long lasting brand image to a targeted audience

### As a **Visitor**

- Access to the latest technology, products and services available in the market
- Find availability of raw materials, alternate suppliers, recent trends in the manufacturing and trading segments
- Find about sources of investments & funding
- Find professionals & skilled manpower

and **MUCH MORE** to **Explore...**



[www.hyve.group](http://www.hyve.group)

Hyve India Pvt Ltd is a part of Hyve Group , UK.

We delivers game-changing impact for people, business and beyond. How? By helping people to make the connections that could change everything, through its portfolio of unmissable events and hyper-productive meetings programmes. Hyve is on a mission to redefine everyone's expectations of events and is using cutting-edge technology and data to amplify their transformative potential. Hyve's portfolio includes world-renowned brands such as Shoptalk, Bett, CWIEME and Fintech Meetup.

We work across various industry sectors including, Engineering, Metal, Machinery, Paper, Packaging, Pro Sound & Light Roofing, Tools, Tissue and more across India & beyond.

## Contact Us

### New Delhi

#### Hyve India Private Limited

(CIN. U92490DL2004PTC124343)

503, 5th Floor, Mercantile House, 15, KG Marg,  
Connaught Place, New Delhi-110001, INDIA

Email: [mmmm@hyve.group](mailto:mmmm@hyve.group), Tel: +91 11-23317591

Website: [india.hyve.group](http://india.hyve.group), [www.hyve.group](http://www.hyve.group)

### Chennai Office

#### Hyve India Private Limited

Workflo by OYO, Greeta Towers 99  
Industrial Estate Perungudi Phase 1  
Old Mahabalipuram Road  
Chennai, Tamil Nadu – 600096, INDIA



### UNITED KINGDOM

Hyve Group  
The Studios  
2 Kingdom Street Paddington  
London W2 6JG